

September 05, 2025

Scrip Code-533122

RTNPOWER/EQ

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400 051

Sub: "Newspaper Clipping: Notice of 18th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure"

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith clippings of Notice published in newspapers on September 05, 2025, containing briefly, the details of the 18th Annual General Meeting of the Company, Book closure and other relevant information (complete information/details in the Notice of AGM, available at the link mentioned therein).

The same is also available on the Company website <u>www.rattanindiapower.com</u>.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **RattanIndia Power Limited**

Lalit Narayan Mathpati Company Secretary

Encl: a/a

FINANCIAL EXPRESS

Pipeline Infrastructure Limited

CIN: U60300MH2018PLC308292 Registered Office: Seawoods Grand Central, Tower-1, 3th Level, C. Wing - 301 to 304, Sector 40, Seawoods Railway Station, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400706, India: Tel No.: +91 22 3501 8000; Email: compliance@pipelineinfra.com; Website: www.pipelineinfra.com

NOTICE TO DEBENTUREHOLDERS RECORD DATE FOR PAYMENT OF INTEREST

Notice is hereby given that pursuant to the terms of 7.96% fully paid up, secured, rated, listed redeemable non-convertible debentures in the denomination of Rs. 1,00,000/- each, issued and allotted by Pipeline Infrastructure Limited, on private placement basis, on March 11, 2024 and listed on the debt market segment of BSE Limited ("NCDs"), the Company has fixed 'Record Date' for determining the names of the NCD holders eligible to receive interest. The NCD holders whose names appear as Beneficial Owners on the Record Date as per the list furnished by the Depositories would be entitled to the said payment, as per the following details:

200 M	Scrip Code	ISIN	Record Date	Interest	Date of payment of interest
1 9	975482	INE01XX07059	Monday, September 15, 2025	Interest	Tuesday, September 30, 2025
2 5	975483	INE01XX07042	Monday, September 15, 2025	Interest	Tuesday, September 30, 2025
3 9	975484	INE01XX07034	Monday, September 15, 2025	Interest	Tuesday, September 30, 2025

Suneeta Mane

ACS 26206

Place: Navi Mumbai Company Secretary & Compliance Officer Date: September 4, 2025

केनरा बैंक Canara Bank ि सिंडिकेट Syndicate

ARM BRANCH - MUMBAI :- Canara Bank, Building, 4th Floor, Adi Marzban Path, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, **Email:** cb2360@canarabank.com, **TEL. -** 8655948019, **WEB:** www.canarabank.com

CERSAI SECURITY ID- 400073000872 **POSSESSION NOTICE [Section 13(4)]**

WHERE AS The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes (Enforcement) Act, 2002 (SARFAESI) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 07.08.2024 calling upon the borrowers/guarantors to repay the amount mentioned i the notice, Rs. 27,34,268.60/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Thirty Four Two Hundred Sixty Eight And Paisa Sixty Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice The Borrower/ guarantors/ mortgagers- Mr. Abubakar Usmangani Ansari S/O Usman Gani Ansari having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantors/ mortgagers and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Sub-Section (4) of section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement

The Borrowers attention is invited to the provision of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Rules, 2002 on this the 30th day of Augof the year 2025.

The borrower and guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned no to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK, ARM Branch for an amount of Rs. 30,58,504.20/- (Rupees Thirty Lakhs Fifty Eight Thousand Five Hundred Four and Paisa Twenty Only)as on 29.08.2025and further interest & other charges from 30.08.2025 onwards.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Residential Flat No. 002, Ground Floor ,Admeasuring Area 421 Sq Ft (Carpet Area),Building No. 7-B In Housing Complex In Project "Shubhvastu", All That Piece And Parcel Of Plot Of N.A Land Bearing Plot .7, Survey /Gut No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 140, 143a, 143b, 144, 146a, 146b, 147 Lying And Being Situated At Village Khativali, Taluka Shahpur , District Thane And Within The Limits Of Grampanchayat Khativali District-Thane, Sub District-Shahpur. Date: 30.08.2025 **AUTHORIZED OFFICER, CANARA BANK** Place: MUMBAI

SHRI GURUDEV EN-TRADE LIMITED CIN: L29224MH1984PLC217693

Warden House, 340 J. J. Road, Byculla, Mumbai - 400 008.

PAN: AAHCS0303E | TEL: (91) 22 6996 7900 Website: www.shrigurudeventrade.com | Email: cosec@shrigurudeventrade.com NOTICE OF 41" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 41" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 30" September 2025 at 2:00 p.m. at Warden House 340 J. J. Road, Byculla, Mumbai - 400008 to transact the business as set out in Notice of

Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 will be sent to all members today whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agents/Depository Participant (s). These documents are also available on the website of

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing to its members, facility to cast their right to vote using an electronic voting system from a place other than venue of the meeting ("remotee-voting") for all the business to be transacted at the 41" Annual General Meeting.

The e-voting shall commence on Saturday, 27th September 2025 at 9.00 a.m. and end on Monday, 29" September 2025 at 5.00 p.m. The "remote e-voting" facility shall not be allowed after the aforementioned date and time. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic means or at the 41" AGM of the Company is Tuesday, 23" September 2025.

The Members who have not cast their votes by "remote e-voting" can exercise their voting rights at the 41" AGM. The Company will make arrangements for polling papers in this regard at the venue of 41" AGM. A Member may participate in the 41" AGM even after exercising his right to vote through "remote e-voting" but shall not be allowed to vote again

Notice of 41" AGM is available on the website of the Company at www.shrigurudeventrade.com and also on the website of the Stock Exchange at www.msei.in, In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQs for members and e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com, under help section or write email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Telephone No. 1800 21 09911.

Members who have not registered/updated their e-mail address with MUFG Intime India Private Limited Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company may write to mumbai@in mpms.mufg.com, if shares are held in physical mode or with their Depository Participants (*DPs"), if shares are held in electronic mode, for receiving all future communications from the Company including Annual Reports, Notices, Circulars, etc. electronically. By Order of the Board

For Shri Gurudev En-Trade Limited Shashi Kumar Dujari Date: 5" September, 2025 Director (DIN: 00116132) Place : Mumbai

COURT ROOM NO.81TH

IN THE COURT OF THE HON'BLE MUMBAI CITYCIVIL COURT MAZGAON AT MUMBAI.

Summary Suit No.100811 of 2023 [Order 5 Rule 20, (1-A) of CPC, 1908 for Paper Publication]

Plaint lodged on :- 03.04.2023 / Plaint admitted on :- 04.09.2023 Summons to answer Plaint Under Order XXXVII Rule II of the Code Civil Procedure

UNION BANK OF INDIA, Banking Company constituted under The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) at, 1970; Having its Head Office

at- 239, Vidhan BhavanMarg, Mumbai- 400 021 Having its Branch at, Home Street Branch Forbes Building, Charanjit Rai Marg, Mumbai 400001, Maharashtra, Through Mr. Rajiv Kumar Srivasatava Senior Branch Manager, Agea about Years Occupation ..PLAINTIFF M/s. Jai Mata Di Tours & Travels, Mr. Jagjivan P. Prajapati (proprietor) Room No. 5, Ambashri Chawai, Vaghralpada, Vasai East, Near Bhoidapada, Rajvali, Palghar - 401

DEFENDANTS

Defendant Name: Above Name Defendants. (As Per Order Dated on 24.07.2025 in presiding in court Room No.81TH Order

Passed by H.H.J. SHRI. SANGRAM S. SHINDE) Greetings; WHEREAS the above named Plaintiffs has/ have instituted a Suit in this Honorable Court against you above named Defendant/s Under Order XXXVII Rule II of Code Civil Procedure 1908 THE PLAINTIFF THEREFORE PRAYS:-(a) That the defendant be decreed and ordered to pay to the plaintiff a sum Rs.

2,55,759.46/- (Rupees Two Lakh Fifty Five Thousand Seven Hundred Fifty Nine And Paisa Forty-Six Only) as on 01.10.2022 inclusive interest as on 01.10.2022 with further interest @ 9.45% p.a. with monthly rests from 02.10.2022 till payment judgment & realization (b) This Hon'ble Court be pleased to fix a time within which the defendant be directed

jointly and/or severally to pay the said dues amounts in terms of prayers(A) above, and in default. This Hon'ble Court be pleased to make an order of seizure and attachment of the said vehicle as described in of the defendants and order it to be sold by way of private treaty and/or public auction and proceeds thereof be made over to the plaintiff Bank in protanto satisfaction of its dues as may be certified in prayer(A) above.

(c) That in the event of deficiency on such sale and realizations personal decrees is passed against defendant to the extent of such deficiency. (d) The defendant be directed to furnish a list in the form of an affidavit giving therein

complete details of all his respective movable and immovable assets including Cash and Bank balances held by them either in his respective personal names and/or jointly and/or severally with others and file the same in this Hon'ble Court. (e) This Hon'ble Court be pleased to make an order of attachment of all those movable properties of the defendants including cash and Bank balances and other receivables held by them either in his respective personal names and/or jointly severally with others to be furnished by the defendants in the form of an

affidavit in terms of prayers above. That the defendants may be directed to pay to the plaintiff their costs of the suit. (g) And for such other and further reliefs as the nature and circumstances of the case

You are hereby summoned to cause an appearance to be entered for you. Within ten days from the service hereof, in default where of the Plaintiff/s will be entitled at any time after the expiration of such Ten days to obtained a decree for the sum of Rs. 2,55,759.46/- (Rupees Two Lakh Fifty Five Thousand Seven Hundred Fifty Nine And Paisa Forty-Six Only) such Sum as prayed for and for costs, together with such interest, if any, as the Honorable Court may order. If you cause an appearance to be to be entered for you. The Plaintiff/s will thereafter

serve upon you summons for Judgment at hearing of which you will be entitled to ask the Honorable Court for leave to defend the suit. Leave to defend may be obtained if you satisfy Honorable Court by affidavit or otherwise that there is a defense to suit on merits or that it is reasonable that you should be allowed to defend the suit.

Given under my hand and the seal of this Hon'ble Court Dated this 2dn day of September, 2025 For Registrar City Civil Court, at Mumbai



Nr. Modern, Opp. Maharana Pratap Garden, Bhayander (W), Thane-401101

Mob. No. 9769360902 / Email- itskd4ulegal@gmail.com You are hereby informed that the fee Legal Service from State legal Service from the State legal Services Authority, High Court legal Services Committee, District Legal

Services Authority and Taluka Legal Services Committee as per eligibility criteria are available to you and in case you are eligible and desire to avail the free legal services Authority/Committee

N.B.-: A copy of the plaint along with all annexure thereto Citified as true by Advocate for Plaintiff/s is/are enclosed herewith.

Advocate for Plaintiff/s Signature Note: Next date in this suit is 09.09.2025 Please Check the status and next /further date of this suit on the official website of City Civil & Session Court Mazgaon at Mumbai.

ADVOCATE NAME: - KULADEEP C. SHUKLA

DCM LIMITED

Registered Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza - II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006

CIN: L74899DL1889PLC000004 Website: www.dcm.in, Email id: investors@dcm.in, Tel No.: 011-41539170 INFORMATION REGARDING 135TH ANNUAL GENERAL MEETING

OF DCM LIMITED

In furtherance to our Notice published in the newspapers viz. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on August 20, 2025 regarding the 135th Annual General Meeting ('AGM') of DCM Limited ('the Company') to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), the Members of Company are hereby informed that the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting ('remote e-voting' and 'evoting at the AGM') and the Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent on September 04, 2025 to those Members whose e-mail id's are registered with the Company/Depository Participants ('DPs')/Registrar and Transfer Agent of the Company ('RTA'). Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') a letter containing the weblink and exact path of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent at the registered address of the Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/DPs. The Members requiring the hard copy of the Annual report may send their request on investors @dcm.in Members may download the Notice of AGM, Annual Report for the financial year 2024 25 and other relevant documents from the website of the Company viz. www.dcm.in stock exchanges where shares of the Company are listed viz. BSE Limited at www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Limited viz. www.nseindia.com and National Securities Depository Limited ('NSDL') viz. www.evoting.nsdl.com. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company The detailed procedure for attending AGM, e-voting ('remote e-voting' and 'e-voting

at the AGM') etc. is set forth in the Notice of AGM, on the following lines: . The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the businesses set forth in the Notice of AGM through remote e-voting and e-voting

at the AGM. Procedure for e-voting and attending the AGM for Members are provided in Notice of AGM. NSDL has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility.

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote From 9:00 A.M. (IST) on September 26, 2025 e-voting End of remote e-voting Up to 5:00 P.M. (IST) on September 29, 2025

he remote e-voting facility will be forthwith disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote through remote e-voting, beyond the said date and time

Members of the Company whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025 only, are entitled for e-voting and to attend the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Voting rights of the Members shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date. Person who are not member as on Cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereat.

In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025 or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of AGM.

Manner of registering/updating email address:

 Members holding shares in physical form and who have not registered/ updated their KYC details including e-mail id with the Company or RTA, may register/ update such details by downloading the relevant forms from the said link https://www.mcsregistrars.com/downloads.php.and.sending.the.same physically along with the request letter duly filled with the details therein and attaching such documents as required in the forms to MCS Share Transfer Agent Limited, Unit: DCM Limited, 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020; and

> Members holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their e-mail address, can register/update their email address with the DPs where they maintain their demat accounts.

The result will be declared by the Chairman or any other person authorized by him on or before Thursday, October 02, 2025. The result along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website viz. www.dcm.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com. The result shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. NSDL and Central Depository Services (India) Limited. The Company will also display the result at its Registered Office.

In case of any query regarding e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre. Senior Manager (NSDL) at evoting@nsdl.com or can write at NSDL, 301, 3rd Floor Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051 or call at 022 - 4886 7000

For DCM Limited

Place: Delhi Date: 04.09.2025

Arjit Gupta Company Secretary

LANDMARC LEISURE CORPORATION LIMITED CIN: L65990MH1991PLC060535

Reg. Office: 303, Raaj Chamber, 115 R.K. Paramhans Marg, (Old Nagardas Road), Near Andheri Station Subway, Andheri - East, Mumbai-400 069. Website: www.licl.co.in | Email ID: grievances@licl.co.in | Contact no.: 022-61669190/91/92 NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that, the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the company will be convened through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act 2013 and the rules notified thereunder, read with General Circular No. 14/2020 dated 08.08.2020. Circular No.17/2020 dated 13.04.2020, Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, Circular No. 02/2021 dated 13.01.2021, Circular No. 2/2022 dated 05.05.2022, Circular No. 3/2022 dated 05.05.2022, Circular No. 10/2022 and Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022, Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 and Pursuant to the Circular issued by Securities & Exchange Board of India ('SEBI Circular'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/ 2020/79 dated 12.05.2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/CIR/2023/4 dated 05.01.2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07.10.2023 and all other relevant circulars issued from time to time.

The 34th AGM of the Company will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 04:00 P.M. (IST), through VC/OAVM facility provided by Bigshare Services Pvt. Ltd ("Bigshare"), Register and Transfer Agent of the company, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The member can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum for

In compliance with the MCA and SEBI Circular(s), the notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the company for the year 2024-25 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the company/ Depository participant(s). No physical copies of the notice and the Annual

Report would be sent to any member. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at https://llcl.co.in/ and on the website of Stock Exchange i.e.

BSE Limited at www.bseindia.com Manner of registering/ updating email address for receiving the documents pertaining to 34" AGM

Members may send an e-email request addressed to grievances@llcl.co.in and admoarticipant@bigshareonline.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self - attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable Bigshare to register their address and to provide them the Notice, Annual report and the e-voting instructions

Kindly note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only for temporary registration of email address for receipt of the Notice, Annual Report and the evoting instructions along with the user ID and Password. Such members will have to register their email address with their Depository Participants permanently, so that all communications are received by them in electronic form.

Manner of casting vote(s) through e-voting Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the

along with the user ID and Password.

Notice of the AGM through remote e-voting facility ("remote e-voting"). The facility for evoting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the

Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM. The same login credentials can also be used for attending the AGM through VC/OAVM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes through e-voting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, as amended, read with SEBI (LODR) Regulations, 2015. The details of e-voting are as under: Date of Dispatch of Notice - September 03, 2025.

2. The e-voting period begins on Saturday, September 27, 2025 at 10:00 A.M. and ends

Place : Mumbai

Date: September 3, 2025

on Monday, September 29, 2025 at 5:00 P.M. During this period, shareholders of the Company holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for 3. Any person who becomes member of the company after the cut-off date may apply

for e-voting login id password as per procedure given in the ballot form which is available on www.llcl.co.in and www.bseindia.com. 4. The result of the e-voting shall be declared by the director of the company on October

5. Members who have cast their vote by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through e-voting can vote in the meeting.

 Members may contact Mr. K R Mahadevan, Whole time Director, on 022-61669190 email at grievances@llcl.co.in for any grievances relating to e-voting.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulation that the Register of Members of the Company will be closed from Wednesday, September 24, 2025 to Friday, September 26, 2025 for the purpose of AGM.

For Landmarc Leisure Corporation Limited

Mahadevan Ramanathan Kavassery Whole Time Director & CFO epabler.¶###dialexpress.com

Place: New Delhi

Date: 04.09.2025

FORM A

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

QUADRANT TELEVENTURES LIMITED RELEVANT PARTICULARS Quadrant Televentures Limited Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor ROC-Mumbai Authority under which corporate debtor is incorporated / registered Corporate Identity No Limited Liability CIN: L000000MH1946PLC197474 Identification No. of corporate debtor Registered Address: Flat no. 8, B-Type, Sadafuli Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor Building, Tirupati Park, Gurusahani Nagar, N-4, CIDCO, Aurangabad City, Aurangabad. Aurangabad, Maharashtra, India- 431001 Address where books of accounts are maintained: B-71, Industrial Area Phase- VII. Mohali, Punjab, India- 160055 Insolvency commencement date in respect of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 1st March, 2026 (180th day from the date of Commencement of Insolvency Resolution Process) resolution process Name and registration number of the Name: Atul Kumar Kansal Regd. No.: insolvency professional acting as interim

IIBBI/IPA-001/IP-P00035/2016-2017/10088 esolution professional AFA Valid Upto: 31.12.2025 Address and e-mail of the interim resolution Ground Floor, 221-A/19, Onkar Nagar-B, Tri Nagar, professional, as registered with the Board North West, National Capital Territory of Delhi Email: advatulkansal@gmail.com 10. Address and e-mail to be used for Immaculate Resolutions LLP, Unit No. 112, First Floor, Tower-A, Spazedge Commercial Complex Sector-47, Sohna Road, Gurgaon-122018 professional Email Id: Qtl.ibc@gmail.com 11. Last date for submission of claims 12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of Not Applicable sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional 13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each

(b) Details of authorized representatives are (b) Not Applicable Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench (Court-I) has ordered the commencement of a Corporate Insolvericy Resolution Process of the Quadrant Televentures Limited dated 2nd September, 2025 The creditors of Quadrant Televentures Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 16th September, 2025 to the interim resolution professional at the address mentioned

14. (a) Relevant Forms and

Place: Delhi

Date: 05-09-2025

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA Submission of faise or misleading proofs of claim shall attract penalties.

> Atul Kumar Kansal Interim Resolution Professional Quadrant Televentures Limited Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P00035/2016-2017/10088 Registered Address: Ground Floor, 221-A/19, Onkar Nagar-B, Tri Nagar, North West, National Capital Territory of Delhi- 110035 Email For Correspondence- Qtl.ibc@gmail.com Email: Registered with IBBI - advatulkansal@gmail.com AFA Valid up to: 31.12.2025

(a) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

KattanIndia

RattanIndia Power Limited (CIN: L40102DL2007PLC169082)

Registered Office: A-49, Ground Floor Road No. 4, Mahipalpur New Delhi 110037 Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindiapower.com, E-mail: ir_rpl@rattanindia.com

> NOTICE OF 18" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 18th Annual General Meeting ("AGM") of

RattanIndia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 26, 2025, at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder read with General Circular No. 2014/2020 dated April 08, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest being, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) ("MCA Circulars") and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by SEBI ("SEBI Circular") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") to transact the businesses set out in the Notice dated September 04, 2025, calling AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company, Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 18th AGM.

The Company has, in compliance with the above Circulars, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25, on Thursday, September 04, 2025, through electronic mode to those members whose e-mail addresses is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on cut-off date i.e. August, 29, 2025. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has also been Completed on September 04, 2025. Additionally pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("Listing Regulations"), the Company has also sent a letter to shareholders whose e-mails are not registered, with RTA/Company/DP, providing the web-link of Company's website from where the Annual Report

for the FY 2024-25 can be accessed.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable Regulation 44 s of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulation")Listing Regulations, the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered September 19, 2025, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialization form, to cast their right to vote electronically on the businesses set out in the Notice. The procedure/instructions for electronic voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindiapower.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. (IST) on Tuesday, September 23,, 2025, and will end at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September 25, 2025. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the

vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM. The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal &

Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013,

read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September, 20, 2025, to Friday, September 26, 2025, (both days inclusive) for the purpose of AGM. For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may

please contact Ms. C Shobha Anand, Vice President, KFin Technologies Limited at evoting@kfintech.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Power Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-309-4001. For RattanIndia Power Limited

Lalit Narayan Mathpati

Company Secretary

MUMBAISION BRANCH Ground Floor, DS High School Campus. Shiv Shikshan Sanstha Building, Plot. No. 89,99-101, M. K. Kulkarni Marg,

Sion West, Mumbai - 400022

JEWEL AUCTION NOTICE The under mentioned person is hereby informed that he has failed to pay off the principal and interest due on the loan borrowed from the above Bank and in some cases the Notice sent to them by prepaid Registered Post have been returned to the Bank due to non-delivery by Postal authorities and / or non-receipt of the Notice by the under mentioned persons.

He is therefore requested to pay off the Principal, interest and other charges and

redeem the pledged jewels on or before 12.09.2025, within 3.30 PM, failing which the said securities will be sold by Public Auction at the Bank Premises at 4.30 PM on 12.09.2025 or any other date convenient to the Bank thereafter, without any further Notice to the under mentioned persons. If the person named below is deceased, this notice also applies to the respective heir. If the amount of sale of jewels is in excess, it will be credited to their direct and indirect liability loans. If at all any amount is left to be recovered after adjusting the auction proceeds, necessary legal action will be initiated to recover the same.

Jewel Loan Number	Name and Address	Jewel Weights (gram)	Loan Amount Due as on 31.08.2025
	Mr. Subramaniam Raman Flat No. 03, Plot No. 45, Gandhi Bhawan, 15th Road, Chembur (East), Mumbai - 400071.		Rs. 84,178.69
he Bank reserves	s the right to conduct or canc	el the said aucti	on. If the offer is not

concluded within the time on the same day it will be continued on subsequent days on the same terms and conditions without further notice. Bidders should bring identity proof, address proof and PAN card. Bidders must pay the full amount of the bid amount including GST on the day of the auction. Branch Manager, Mumbai Sion, 05.09.2025

Mumbai Sion Branch

IMP POWERS LIMITED IMP CIN: L31300DN1961PLC000232

Registered Office: Survey No. 263/3/2/2, Village Sayli, Umar Kuin Road, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli - 396 230

Office: CH-7, Inspire Business Park, Shantigram, SG Highway, Ahmedabad - 382 421 | Tel. No.: +91-0260-2464100/+91-79-2655 4100 Website: www.imp-powers.com | Email ID: info@imp-powers.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ABOUT E-VOTING NOTICE is hereby given that the Annual General meeting (AGM) of the members

of the Company will be held on Friday, 26th September, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of members at a common venue, to transact the businesses set out in the Notice of AGM, in accordance with General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 latest amended by General Circular No. 09/ 2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024 issued by the SEBI (hereinafter collectively referred to as "circulars"). In compliance with the above circulars, dispatch of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 (Annual Report) has been completed on 04-09-2025 by electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company / Depositories. Further, the Company has also completed dispatch of a letter containing the web-link along with the path to access the Annual Report 2024-25 (including the Notice) to the Members whose email addresses are not registered with the Company/ RTA/ Depository Participant(s) pursuant to Regulation 36(1)(b) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 015 on 04-09-2025. The Notice of the AGM and Annual Report are also made available on the website of the Company at www.imp-powers.com websites of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of MUFG Intime India Private Limited (MUFG Intime) (RTA and agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at https://instavote.linkintime.co.in/. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards -2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations) 2015, the Company is providing the facility of remote e-Voting as well as e-Voting during the AGM to all the members to cast their vote electronically on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of MUFG Intime, for providing the e-Voting facility to the Members. The details as required pursuant to the abovementioned provisions are given under: The members may note that: (a) The remote e-voting period commences on Tuesday, September 23, 2025, at 11:00 a.m. (IST) and will end on Thursday, September 25, 2025 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by MUFG Intime for voting thereafter. (b) The facility for e-voting during the AGM will be made available to those members who attend the AGM and have not already cast their vote through remote e-voting; (c) The

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again; (d) The person whose name is entered in the register of members or beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, 19th September, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting; (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holds shares as of the cut-off date, may obtain the log-in and password by sending request at enotices@in.mpms.mufg.com mentioning their demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. The procedure for electronic voting is available in the Notice of AGM. Please refer e-Voting manual for Shareholders available in the download section at https://instavote.linkintime.co.in/.

In case of you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the MUFG Intime e-Voting System, you can write an email to enotices@in.mpms.mufg.com or contact at telephone no. 022-49186000. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, MUFG Intime, at C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400 083 or send an email to enotices@in.mpms.mufg.com or aforesaid telephone number.

For, IMP Powers Limited Date: 04-09-2025 Rakesh Shah Place: Ahmedabad Chairman - DIN: 00421920

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Read, Office: Unit No. 2075, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana

Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN: L51909DL1985PLC020372 Website: www.atlantic-commercial.com E-mail id: limitedatlantic@gmail.com. Phone No.: 011 - 41539140

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Atlantic Commercial Company Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 2.30 P.M. (IST) at Unit No. 2075, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006, to transact the business as Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September

24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid AGM.

The Annual Report for financial year 2024-25 including Notice of 40th AGM of the Company have been sent to all members whose email are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2024-25 is available on the website of the Company at www.atlantic-commercial.com and NSDL's website Further, in accordance with the MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/ DDHS/ P/CIR/2023/0164 dated 6th October, 2023, the Annual Report for Financial Year 2024-25, which inter-alia comprises of the Audited Financial Statements along with the Reports of the

Board of Directors and Auditors thereon and Notice calling the AGM pursuant to section 101

of the Act read with the Rules framed thereunder, are being sent only in electronic mode to

those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) or the DP(s). As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), on all resolutions proposed to be

considered at the aforesaid AGM. Further, the facility for voting through polling paper shall be available at the AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the

AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. Ms. Pragnya Parimita Pradhan, Company Secretary in whole-time practice, proprietor of M/s Pragnya Pradhan & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and the voting at AGM in a fair and transparent manner.

All the members are hereby informed that: The Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of 40th AGM

of the Company may be transacted through voting by electronic means; The remote e-voting period commences on Friday, September 26, 2025 (9.00 A.M. IST);

The remote e-voting period ends on Monday, September 29, 2025 (5.00 P.M. IST); (iv) Cut-off date: Tuesday, September 23, 2025;

(v) Any person, who acquires and/or allotted/issued shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut- off date i.e. September 23, 2025, may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at toll free number 1800-222-990. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote:

(vi) The members may note that: (A) remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, September 29, 2025 (5.00 P.M. IST);

the facility for voting through polling papers shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM; (C) a member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM; and (D) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owner maintained by the depositories as on cut-off date i.e. September 23, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM; (vii) In case of any queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for

members' and 'e-voting User Manual for members' available at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Ajay Kumar Dalal, Sr. Manager / Mr. Amarjit, Sr. Manager, MCS Share Transfer Agent Limited, F - 65, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020: Phone No. 011-41406149, email; admin@mcsregistrars.com or contact NSDL at toll free number: 1800-222-990, who will address the grievances connected with the electronic voting. The information contained in this notice shall also be available on the website of the Company

(www.atlantic-commercial.com) and also on the website of Metropolitan Stock Exchange of India

For Atlantic Commercial Company Limited Olive Pamela Jacob

Company Secretary

Place: New Delhi Date: 04.09.2025



मैक्सपोज़र लिमिटेड

CIN: L22229DL2006PLC152087 पंजीकृत कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-3नई दिल्ली - 110020 फ़ोन: +91 (11) 43011111. ई-मेल: cs@maxposuremedia.com, वेब: www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, दिनांक 29 सितंबर, 2025 को शाम 04:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के सहायतार्थ आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें। इन परिपत्रों में सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 संख्या शामिल हैं। आम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जो शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे और जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी एनएसई लिमिटेड (एनएसई इमर्ज) की वेबसाइट https://www.nseindia.com/ और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/ पर भी उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025, यानी कट-ऑफ तारीख तक रजिस्टर में दिख रहा है।

सदस्यों से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे भविष्य में कंपनी के संदेश ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को (कट ऑफ तिथि: मंगलवार, 23 सितंबर, 2025) को बिगशेयर द्वारा संचालित रिमोट-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजअल माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम हेत् गिना जाएगा।

सदस्यों के लिए वार्षिक रिपोर्ट में रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया, साथ ही वोट देने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत हेतु वे श्री राजेश कुमावत, सहायक महाप्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या S6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से संपर्क करें या rajeshk@bigshareonline.com पर ई-मेल भेजें या

इसके अतिरिक्त सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, दिनांक 24.09.2025 से सोमवार, दिनांक 29.09.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

यह विज्ञापन कॉपॅरिट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ हेत जारी किया जा रहा है।

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से

प्रिया केसरी कंपनी सचिव एसीएस 22710

Swastik स्वास्तिक पाइप लिमिटेड CIN : L74899DL1973PLC006881

पंजीकृत कार्यालयः १/23बी, आसम अली रोड, अजमेरी गेट एक्सटेंशन, मध्य दिर्ल्स ल्ली, दिल्ली, गारत, 110002 info@swastikpipes.com Phone: 011-35453545 वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित होने वाली

स्वास्तिक पाइंप लिमिटेड के शेयरधारकों की 52वीं वार्षिक आम बैठक ('बैठक') की सूचना

सदस्यगण कृपया घ्यान दें कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (संबी) (सूत्रीबद्धता दायिख और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2016 (एलुओडीआर) के साथ पठित कार्पोर्ट्ट कार्य मंत्राल्य (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न सं. 09 / 2023 दिनांक 25.09.2023 एवं अन्य परिपन्नों और सेबी परिपन्न दिनांक 07 10,2023 के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 52वें वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमां (ऑएवीएम) के द्वार सोमवार, 29 सितंबर 2025 को प्रात: 11:00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएंगी

संबंधित परिपन्नों के अनुपालन में बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्टॉनिक मध्यम से भेज जाएँगे जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं। बैठक की सचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://swastikpipes.com, स्टॉव एक्सचैज नेशनल स्टॉक एक्सचैज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseinda.com और ई—वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मैसर्स नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि: उपर्युक्त प्रावधानों और एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में कंपनी ने बैठक की सूचना ("सूचना") के साध व्याख्यात्मक विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उने समी संदर्श्य को भेजन का काम पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक

कंपनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। ख. ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को प्रात: 8:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी, -वोटिंग अवधि रविवार, 28 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद

-वोटिंग मॉड्यल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा केवल वे सदस्य जिनके नाम कर-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर 2025 तक कंपनी के सदस्यों के

रजिस्टर या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए लांगार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वह रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार हैं. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आग

बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; रविवार 28 सितंबर 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी

रिमोट ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश बैठक की सचना के नोटस में दिए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएस कर्म साइनी, पेशेवर कंपनी सचिव, सदस्यता संख्या ए६४९८६ की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच करने और निष्पन्न एवं पारवर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम

से मतदान करने के लिए संवीक्षक नियक्त किया है। जिन सदस्यों को सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं, ये cs@swastikpipes.com पर लिखकर सूचना ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से डाउनलीड कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com व

डाउनलॉड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) औ शेयरधारकों के लिए ई--बोटिंग यूजर मैन्अल देख सकते हैं या टोल-फ्री नं: 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर कौल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मंज सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न / शिकायत, यदि कोई हों, के समाधान के लिए संपर्क विवरणः श्री अमन

गीयल, प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर I जिन सदस्यों ने अभी तक कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकत नहीं किए हैं वे निम्नानुसार ई-मेल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

डीमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम रो अपना ई-मेल पता अपडेट करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स विषेश रूप से बैठक में षामिल होंने के निर्देश, रिमीट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने दिनांक 30.05.2022 के परिपत्र के माध्यम से किसी सूचीबद्ध कंपनी और /या किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटो (आरटीए) और उसके शेयरवारकों / निवेशकों के बीच विवादों के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यरधता तंत्र के अंतरांत विवाद समाधान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हितलाभ के लिए और एमसीए तथा सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है। कृतं स्वास्तिक पाइप लिमिटेड की ओर र

स्थानः दिल्ली देनांक : 05.09.2025

डीआईएन : 00165391

रू. मिलियन में

31.03.2023

घ कम्पनी के प्रबन्धन का संक्षिप्त विवरण

+917506071172 पर कॉल करें।

दिनांक: 05.09.2025

स्थान: नई दिल्ली

सीने डार्सल लोनिस्टिक्स लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डार्सल हाउस, प्लॉट न. 55पी, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरूग्राम 122003 फोन नं. 90152-02121 फैक्स: 0124-4034162 ई-मेल: compliance@cjdarcl.com, reachus@cjdarcl.com कम्पनी पहचान संख्या : U60222HR1986PLC068818

मुख्य कार्यालयः १९, तिलक बाजार, हिसार-१२५००१ (हरियाणा) फोन नं. 01662-241003-6 , फैक्स: 01662-232269 , ई-मेल: hisar@cjdarcl.com , वेबसाइट: www.cjdarcl.com

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र (धारा 73(2) (क) और धारा 76 और कम्पनी (जमा की

	स्वी	मृति नियम,	2014 के नियम 4 (1) और नियम 4(2) के अनुसरण में)
1. स	ाधारण सूचना	232	
क	कम्पनी का नाम, पता,	नाम :- सीजे	डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड

1. सा	१. साधारण सूचना				
कम्पनी का नाम, पता, नाम :- सीजे डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड					
	वैबसाईट एवं अन्य सम्पर्क ब्यौरे	पंजीकृत कार्यालयः डार्सल हाउस, प्लॉट न. 55पी, इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर 44, गुरूग्राम 122003			
		फोन नं॰ 90152-02121 फैक्सः 0124-4034162,			
		ई-मेलः compliance@cjdarcl.com, reachus@cjdarcl.com			

कम्पनी पहचान संख्या : U60222HR1986PLC068818

रव कम्पनी के निगमन की तारीख 10 दिसंबर 1986 निजी कम्पनी । जलाई 1994 को मानी गई पब्लिक कम्पनी । दिसंबर 1998 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी

ठा कम्पनी और उसकी समनुषंगी द्वारा कंपनी मुख्य रूप से सड़क, रेल और समुद्री परिवहन के माध्यम से वाहक व्यवसाय, एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान और किया जा रहा कारोबार और उसकी मल्टीमॉडल परिवहन परिचालनों में विशिष्ट लॉजिस्टिक्स और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में लगी हुई है और इसकी 3 पूर्ण

टांसरेल लोजिस्टिक्स लिमिटेड जो की सड़क परिवहन का व्यसाय करती है। 2 डार्सल लोजिस्टिक्स (नेपाल) प्राइवेट लिमिटेड जो की नेपाल में परिवहन का व्यसाय करती है।

सीजे कोरिया एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवहन और वेयरहाउसिंग का व्यसाय करती है। हिसार, दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बैंगलौर, बड़ौदा, भोपाल, चन्देरिया, चेन्नई, गांधीधाम, हिल्दया, गुवाहटी, जामनगर, जमशेदपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, रायगढ़, सूरत, तारापुर, टाटा नगर, तुतीकोरिन

कंपनी अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, संयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, तथा निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन प्रबंधित किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पता	डिन	उपजीविका
1	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	बी-05/405, तृतीय तल, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, गुड़गांव-122002, हरियाणा।	00151179	व्यवसायी
2	श्री दर्शन कुमार अग्रवाल	बी-374, लोक विहार, पितमपुरा, नई दिल्ली।	00151560	व्यवसायी
3	श्री रोशन लाल अग्रवाल	20/51, वैस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली।	00151657	व्यवसायी
4	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	ए-05/110, पीडी-1, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, एम.जी. रोड़, गुड़गांव-122002, हरियाणा।	00052456	व्यवसायी
5	श्री जंग हुन बैग	36-5, नामगोक-गिल, नोंगसो-मायऑन गिमचेओन-सी, ग्यनसंगबुक-डो, कोरिया-39659	09268841	पेशेवर
6	श्री ह्युन चुल यू	108-डोंग 601-हो 130 सदांग-रो 27-गिल, डोंगजक-गु, सियोल मेट्रोपॉलिटन	10667938	पेशेवर
7	श्री ग्वोन दूंग किम	508-डोंग, 1106-हो, 25, हनेउलमाउल 1-आरओ, इल्सांडोंग-गु, गोयांग-सी, ग्योंगगी-डो, कोरिया गणराज्य	10669349	पेशेवर
8	श्री ताए ग्युन किम	2401-डोंग 501-हो 90 डोंगबेक आरओ, गिहेडंग योंगिन सी, ग्योंगगी-डो	10947317	पेशेवर
9	श्री वोंचन ली	12-डोंग 201-हो, 14 ह्योरयोंग-आरओ 72-गिल, सेचो-गु, सियोल, कोरिया	09691345	पेशेवर
10	श्री ह्यून चुल मेंग	1-706 40, सिलिम-आरओ 3-गिल, ग्वानाक-गु, सियोल, कोरिया गणराज्य	12018711	पेशेवर
11	श्रीमती निधि अग्रवाल	ई-501, यूनीवर्ल्ड सिटी ईस्ट, सेक्टर 30, गुड़गांव 122001 (हरियाणा)	10218762	पेशेवर
12	श्री सुबोध गोयल	फ्लैट डी-803, एम 2 के विक्टोरिया गार्डन, आजादपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110033	09780754	पेशेवर

कम्पनी अपने कोषों का उपयोग अपने व्यवसाय में ही करती है अतः कोई भी जोखिम (साधारण व्यवसायिक जोखिम को छोड़कर) नहीं है जिसका सामना प्रत्येक कम्पनी को करना पड़ता

है। कम्पनी ने अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय व सम्पत्तियों की जोखिम से रक्षा के लिए पर्याप्त बीमा ले रखा है। व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अवधि और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति

शून्य शून्य 3 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण और उनका ब्याज

जमा स्कीम के विवरण बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख 24.06.2025 जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख; 31.10.2014 जमा की प्रकार (प्रतिभृति सहित अथवा प्रतिभृति रहित) प्रतिभूति रहित जमा राशि का विवरण (मिलियन रुपए में) i) वह रकम जो कम्पनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनसार जमा द्वारा स्वीकार की जा सकेगी। जनता से 1799.79 मिलियन अंशधारियों से 2519.71 मिलियन (35% of Net Worth) ii) वास्तविक जमा राशि जो ले रखी है :-अ) तत्काल पर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन यानी 31.03.2025 को रू. 185.80 मिलियन*

आ) इस प्रपत्र या विज्ञापन को जारी करने की तिथि पर 24.06.2025 रू. 194.87 मिलियन*

रू. 450.00 मिलियन iii) प्रस्तावित जमा राशि अगले 12 महीनें में प्रतिसंदाय के लिए देय राशि 24.06.2025-23.06.2026 रू. 102.56 मिलियन* इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल जमा रिटर्न (फॉर्म-डीपीटी-3) में दर्शाई गई डीड जमा रू. 1.90 मिलियन शामिल नहीं है।

😨 जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय

I. असंचयी जमा योजना (ब्याज तिमाही देय)

06 महीने एवं 12 महीने से कम 50,000/-6.00% 12 महीने एवं 24 महीने से कम 50,000/-7.25% 24 महीने एवं 36 महीने से कम 50,000/-7.50% 50,000/-7.75%

म संस्थी ज्या योजन (ज्यान जननि विसरी)

ङ जमाकत्ताओं की कुल संख्या

संख्याए व्यतिक्रम की रकम और अवधि

जमाकताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट

11. सचया जमा याजना (ब्याज चक्रवृद्धि तिमाहा)					
अवधि	न्यूनतम जमा राशि (रू)	वार्षिक ब्याज दर	वार्षिक प्राप्ति	परिपक्कता राशि (रू)	
06 महीने	20,000	6.00%	6.05%	₹. 20605/-	
12 महीने	20,000	7.25%	7.45%	रू. 21490/−	
24 महीने	20,000	7.50%	8.01%	₹5. 23204/-	
36 महीने	20,000	7.75%	8.63%	रू. 25179/−	

न्यूनतम एवं अधिकतम जमा राशि की अवधि क्रमशः 6 महीने एवं 36 महीने है। 6 महीने एवं 36 महीने के बीच की अवधि में जमा राशि दोनों असंचयी एवं संचयी जमा योजनाओं के अन्तर्गत

1. न्युनतम राशि से अधिक की जमा राशि 1000/– रुपए के गुणकों में स्वीकार की जायेगी। असंचयी जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर जमाधारक की प्रार्थना पर ब्याज मासिक दिया जा सकता है।

2. वरिष्ठ नागरिकों को दोनों योजनाओं में 0.50% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा

ı	भुगतान	ा की विधिः	चैक, डिमांड ड्राफ्ट, एन. ई. एफ. टी एवं आर.टी.जी.एस
ı	पुर्नभुग	तान की विधिः	चैक, डिमांड ड्राफ्ट, (एन. ई. एफ. टी एवं आर.टी.जी.एस प्रार्थना पर)
ı		प्रस्तावित समय अनुसूची	
ı		स्कीम के प्रारम्भ की तारीख	05.09.2025
ı		समयावधि, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है :	30.09.2026 अथवा वितीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक साधारण सभा जो भी पहले हं
ı	ज	जमा जुटाने के कारण या उद्देश्य- अल्प अवधि धन/सक्रिय	पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए
ı	झ	प्राप्त केडिट रेटिंग	
ı		i) क्रेडिट रेटिंग जारी करने वाली एंजेसी	क्रिसिल
ı		ii) प्राप्त रेटिंग	ए/स्थिर
		20: 2	

iii) प्राप्त रेटिंग का अर्थ iv) रेटिंग प्राप्त करने की तिथि 17.01.2025

च जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रमए यदि कोई हो तो जिसमें जमाकताओं की श्रून्य

5 जुलाई 2018 से प्रभावी कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा छोड़ा गया। ट इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किये जाने वाले प्रभारए यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण- शून्य क्योंकि कम्पनी प्रतिभूति रहित जमा स्वीकार कर रही है।

258 (24.06.2025 तक), 278 (31.03.2025 तक)

👅 इस प्रकार की जमा में निदेशको, संप्रर्वतकों या मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य सारवान हित और उस हित का प्रभावए जहाँ तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है- शुन्य 3 किसी बकाया जमा का विवरण:-

क 31.03.2025 तक स्वीकृत रकम 24.06.2025 को बकाया रू. 161.89 मिलियन ख स्वीकृति की तारीख 31.03.2025 तक रू. 185.79 मिलियन ग स्वीकृत कुल रकम घ ब्याज की दर 8.25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि तिमाही तक

दिनांक: 05.08.2025

स्थानः गुड़गांव

4 कम्पनी की वित्तीय स्थिति

विवरण

क) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबन्ध करने से पहले और उसके पश्चात कम्पनी के लाभ रू.

वित्तीय वर्ष करो से पहले लाभ

1			
	की समाप्ति	(रू मिलियन में)	(रू मिलियन में)
ı	31 मार्च, 2023	842.63	659.54
ı	31 मार्च, 2024	989.22	795.40
l	31 मार्च, 2025	1089.67	855.15
	ख) तीन वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा घोषित लाभांशय पि	छले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवरेज (कर के पश्चात नव	हद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात नकद लाभ)
		• •	

वित्तीय वर्ष समाप्ति	घोषित लाभांश		ब्याज आवरण
	(रू मिलियन में)	%	अनुपात
31 मार्च, 2023	शून्य	शून्य	2.87 बार
31 मार्च, 2024	शून्य	शून्य	2.56 बार
31 मार्च, 2025	शून्य	शून्य	2.64 बार

31.03.2025

31.03.2024

परिसम्पतियाः-			
अचल सम्पत्तियां			
मूर्त सम्पत्तियां	4,853.88	4110.12	3282.19
उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति	826.50	765.89	793.47
प्रगतिशील पूंजी	-		129.65
अमूर्त संपत्ति	25.32	57.59	65.02
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	1.76	-	3.65
निवेश संपत्ति	11.41	11.80	43.40
गैर चालू निवेश	185.20	180.58	185.18
अग्रिम धन			
i) ऋण व अग्रिम धन	820.96	361.75	96.25
गैर चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	1102.87	1051.37	1063.00
अन्य गैर चालू सम्पत्तियां	84.13	29.80	28.36
कुल अचल सम्पत्तियां (ए)	7912.03	6568.90	5690.17
चालू सम्पत्तियां,			
स्कंध (रहतिया)	51.64	63.83	36.77
अनुबंध संपत्ति	442.25	464.15	357.45
अग्रिम धन			
i. मौजूदा निवेश		1.35	1.01
ii. व्यावसायिक देनदार	9862.93	8291.13	7565.42
iii. नकद और नकद समकक्ष	13.38	6.85	56.61
iv. उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बैलेस	38.39	45.64	68.63
v. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	777.87	425.69	317.67
वालू सम्पतियां	665.71	682.08	581.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (बी)	11852.17	9980.72	8984.95
बक्री के लिए रखी गई संपत्ति	22.74	6.87	20.40
कुल	19786.94	16556.49	14695.52
अंशपूजी व देयताएं			
अंशधारी कोष			
अंशपूजी	226.62	226.62	226.62
संचय व अतिरेक	7074.60	6239.97	5440.94
गैरचालू दायित्व	7301.22	6466.59	5667.56
गैर–चालू दायित्व			
वित्तीय दायित्व			
i. उधार	2380.31	1982.84	2347.28
ii.लीज दायित्व	1050.38	797.43	648.41
iii. अन्य वित्तीय दायित्व	49.28	38.93	36.53
कर्मचारी लाभ दायित्व	128.89	84.36	109.70
स्थगित कर दावित्व (शुद्ध)	281.34	201.61	120.15
कुल गैरचालू दायित्व	3890.20	3105.17	3262.07
चालू देयताएँ	1 1		
अनुबंध देयताएं	11.49	14.04	14.06
जनुषय दयतार चालू दायित्व	11.47	14.04	14.00
चालू दाायत्व i. उधार	5/00.00	4025 57	2720.20
ı. उधार ii.लीज दायित्व	5689.23	4935.57	3729.28
	266.56	229.26	164.56
iii.च्यापार देय			
-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	0.48	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमी के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	1815.60	1376.87	1379.60
v. अन्य चाल देयतायें	287.89	22.68	100.61
अल्कालीन प्रावधान	13.75	26.04	20.00
कर्मचारी लाभ दायित्व	117.93	88.06	83.42
अन्य चालू देयतायें	392.59	292.21	274.36
कुल चालू देयतायें (सी)	8595.53	6984.73	5765.89
कुल इक्विटी और			
देयताएँ (ए+बी+सी)	19786.94	16556.49	14695.52

घ) इस परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरणय

			रू. मिलियन में
विवरण	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (अ)	1208.32	965.79	1310.77
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ब)	(1450.56)	(1005.23)	(1484.82)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (स)	248.78	(15.57)	213.19
नकदी या नकदी तुल्य में बढ़ोतरी / कमी (अ+व+स)	6.53	(55.02)	39.14
नकदी या नकदी तुल्य का प्रारम्भिक शेष	6.85	56.61	17.47
विलय की योजना में अर्जित नकदी और नकदी समतुल्य	8 - 9	5.26	-
नकदी या नकदी तुल्य का अंतिम शेष	13.38	6.85	56.61
		20 42 0 : 0 00	2 2 2

😮) कंपनी के पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखा नीतियों में कोई बदलाव और उनका लाभ और आरक्षित फंड पर प्रभाव वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बैलेंस शीट कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 133 और अनुसुची-III के तहत निर्धारित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (भारतीय लेखा मानक) और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नितियों के अनुसार लागू सीमा तक तैयार की गई है।

5. निदेशकों द्वारा घोषणा क कम्पनी ने अधिनियम के प्रारम्भ से पहले और इसके पश्चात स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिकम नहीं किया है।

ख यह है कि निदेशक बोर्ड ने कम्पनी के कार्यों और भविष्य के सम्बन्ध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कम्पनी की प्रत्याशित भावी वितीय स्थिति को देखते हुए कम्पनी अन्य देयताओंए जब वे बकाया

होंगीए को परा करे सकेगी और कम्पनी परिपत्र या विजापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी

ग कम्पनी ने अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गये नियमों का अनुपालन किया है: ध अधिनयम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं की जमा के प्रतिसंदाय की गारन्टी केन्द्रीय सरकार की है।

💈 अधिनियम के लागू होने से पूर्व कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमाओं का प्रतिसंदासय कर दिया गया है अथवा परिपक्वता के समय उस पर ब्याज सिहत उसका प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा और जब तक उनका प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता उन्हें प्रतिभूति रहित और अन्य प्रतिभूति रहित देनदारियों के समरूप श्रेणी में माना जाएगा;

छ जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा;

च क्रेडिट रेंटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापिस लेने का अवसर दिया जायेगा;

ज कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभृत सहित जमा राशि को छोड़कर यदि कोई हो) प्रतिभृति रहित है और इसे कम्पनी की अन्य प्रतिभृति रहित देनदारी के समरूप माना जायेगा। 6. दावात्याग - यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि रजिस्ट्रार के पास परिपत्र अथवा विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र फाईल करने को यह न माना जाये कि उसे रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृति अथवा अनुमोदन दिया गय है। रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार की किसी जमा स्कीम की वित्तीय सुदढ़ता के लिए जिसके लिए जमा स्वीकार या आमंत्रित की गई है अथवा परिपत्र विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र में दिए गए विवरणों या मतों की सत्यता के लिए

कोई जवाबदेही नहीं है। जमाकर्ता जमा स्कीमों में निवेश करने से पूर्व पूरी सतर्कता बरतें। जमा आमंत्रित करने के लिए इस परिपत्र और विज्ञापन के लिए निदेशक मंउल के अधिकार व नाम में एक प्रस्ताव जारी किया जा रहा है औरी इसकी पाठ्य सामग्री मंडल द्वारा 24.06.2025 को हुई मीटिंग में स्वीकृत की गई।

डीपीटी-1 पर ऑडिटर प्रमाण पत्र

एस.आर. बटलीबॉय एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सीजे डार्सल लोजिस्टक्स लिमिटेड वैधानिक लेखा परीक्षक इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2020 रे 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में, जमा राशि के पुनर्भुगतान या स्वीकार की गई ऐसी जमा राशि पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। हमारा प्रमाणपत्र हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन अभ्यावेदन पर आधारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंटर फर्म पंजीकरण संख्या 101049 डब्ल्यू/ई30000

सीजे डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. CIN: L74899DL1987PLC026617

Regd. Office: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025 E-mail: cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone: 011-49872442, 19. PUBLIC NOTICE – 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

his is to inform that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated September 19, 2024 read with Circular dated September 25, 2023, December 28, 2022, May 5, 2022, December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated October 3, 2024 read with Circular dated October 7, 2023, January 5, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as Circulars), on Tuesday, 30th September, 2025 at 1:30.P.M. to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its members similar to earlier practices.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 of the Company will be available on the website of the Company at

www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time. The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed

instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by MCA and

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant,

please follow the process of registering the same as mentioned below: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company,

Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your Holding email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declared by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However, members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned

in the notice of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. For National General Industries Ltd

Place: New Delhi Vandana Gupta

Date: 4th September, 2025

Rattanino

Company Secretary | A-24012

रतनइंडिया पावर लिमिटेड (CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindiapower.com, ई-मेल: ir_rpl@rattanindia.com 18वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा

शेयरधारकों के पस्तक के परिसमापन की सचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **रतनइंडिया पावर लिमिटेड** (कंपनी) की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 26, 2025 को दोपहर 03:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी । सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 2014/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम हैं, सामान्य परिपत्रों संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (एमसीए) ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी/एचओ/सीएफडी पीओडी-2/ पी /सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, सेंबी द्वारा जारी ("सेंबी परिपत्रों") (इसके बाद सामृहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है) दिनांक सितम्बर 04, 2025 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेत् एजीएम बुलाई गई है । एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 18वीं एजीएम नोटिस में

कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास यानि **दिनांक अगस्त 29, 2025** को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से **दिनांक सितंबर** 04, 2025 को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण कट-ऑफ तिथि अर्थात 29 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 04 सितंबर, 2025 को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 36 (1) (बी) के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को पत्र भी प्रेषित किया है जिनके ई-मेल पते आरटीए/कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं। इस पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक उपलब्ध कराया गया है, जहाँ से वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44एस के अनुसार कंपनी का (आरटीए, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सुचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ दिनांक **सितंबर 19, 2025** रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक सितम्बर 23, 2025 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरूवार, दिनांक सितम्बर 25, 2025 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी ।

दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से बोट करने के लिए पात्र होगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं ।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-बोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है ।

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर और और शेयर ट्रांसफर पुस्तक शनिवार, सितम्बर 20, 2025 से शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रेहेंगे।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उपाध्यक्ष , केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-309-4001, तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गांचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 04.09.2025

कंपनी सचिव

ललित नारायण मठपति

epaper.jansatta.com